

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २८२]

नई दिल्ली, शक्रवार, मई ५, १९६७/वैशाख १५, १८८९

No. 282]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 1967/VAISAKHA 15, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जानी है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION, INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April 1967

S.O. 1647.—The following order of the Election Commission is published for general information:—

ORDER No. 17B

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delimitation Commission Act, 1962, I hereby make the following correction in the Delimitation Commission's Order No. 17, dated the 22nd July, 1966, relating to the Union Territory of Delhi, namely:—

In the Table of the Order, in item 2—South Delhi, for the words "and abadies Asalatpur, Posangipur, Nangli Jalib, Chaukhandi and Tilak Nagar upto its junction with Najafgarh drain", the words "and abadies Asalatpur, Posangipur, Nangli Jalib, Tilak Nagar, Chaukhandi and Tatarpur upto its junction with Najafgarh Drain behind J. J. Colony" shall be substituted.

K. V. K. SUNDARAM,
Chief Election Commissioner.

[No. 282/DL/66]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

(1071)

